

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-26062024-254945  
SG-DL-E-26062024-254945असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]	दिल्ली, मंगलवार, जून 25, 2024/आषाढ 4, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 79
No. 161]	DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 2024/ASHADHA 4, 1946	[N. C. T. D. No. 79

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 जून, 2024

फा. सं. 09/12/2010/गृह (सा0)/1402-1408—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं.फा. 0927/59—एचआईएम(प) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 21.5.2012 की अधिसूचना फा0 सं0 09/12/2010/गृह (सा0)/2034 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या किए जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली कारागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “सहायक अधीक्षक” के पद हेतु निम्नानुसार नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (क) इन नियमों को दिल्ली कारागार सहायक अधीक्षक भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।

(ख) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :—ऐसा कोई भी व्यक्ति  
(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या  
(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;  
शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।
6. **बचाव** :— इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### अनुसूची

1.	पदनाम	:	सहायक अधीक्षक
2.	पदों की संख्या	:	312* (2024) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ख", अलिपिकीय, अराजपत्रित
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-रुपये)
5.	क्या चयन मैरिट द्वारा अथवा चयन-सह-वरिष्ठता अथवा गैर चयन पद है	:	चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्षों से अधिक नहीं  (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये पांच वर्ष तक शिथिलनीय) टीप:- आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि डीएसएसएसबी/समक्ष प्राधिकारी द्वारा यथा विज्ञापित होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य :  (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।  वांछनीय योग्यता:  अपराध-विज्ञान, समाजभास्त्र, सामाजिक कार्य, मनोविज्ञान सिद्धान्त में मास्टर डिग्री।

		<p><b>शारीरिक मापदंड (पुरुषों के लिए)</b></p> <p><b>ऊंचाई :</b> 165 सें0मी0</p> <p>पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए, अर्थात् गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा तथा सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर तथा जम्मू एवं कश्मीर का लेह एवं लद्दाख क्षेत्र के राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 5 सें0मी0 की छूट।</p> <p>(इस छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक माप परीक्षण के समय आवेदन के साथ अपने निवास के सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डीसी/डीएम/एसडीएम अथवा तहसीलदार से इस आय का प्रमाण पत्र (पहाड़ी क्षेत्र का प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना होगा)।</p> <p><b>छाती :</b></p> <p>न्यूनतम 81 सें0मी0 से 85 सें0मी0 (न्यूनतम 4 सें0मी0 का फुलाव सहित)।</p> <p>पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिये 5 सें0मी0 की छूट और जिसके लिए उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।</p> <p><b>शारीरिक मापदंड (महिलाओं के लिए)</b></p> <p><b>ऊंचाई :</b> 157 सें0मी0</p> <p>पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए अर्थात् गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा तथा सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर तथा जम्मू एवं कश्मीर का लेह एवं लद्दाख क्षेत्र के राज्यों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 5 सें0मी0 की छूट।</p> <p>(इस छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक माप परीक्षण के समय आवेदन के साथ अपने निवास के सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डीसी/डीएम/एसडीएम अथवा तहसीलदार से इस आय का प्रमाण पत्र (पहाड़ी क्षेत्र का प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना होगा)।</p> <p><b>शारीरिक क्षमता परीक्षा (पीईटी) (पुरुष के लिये):—</b></p> <p>(क) 06 (छह) मिनट और 30 सैंकेंड में 1600 मीटर दौड़</p> <p><b>टीपः</b> जिन्होंने दौड़ उत्तीर्ण कर ली है वे आगे निम्नलिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए योग्य होंगे:</p>
--	--	--

		<p>(i) ऊंची कूद – 3 फीट 6 इंच (दिये गये तीन अवसरों में से किसी एक में उत्तीर्ण करना)।</p> <p>(ii) विस्तृत कूद/लम्बी कूद— 13.0 फीट (दिये गये तीन अवसरों में से किसी एक में उत्तीर्ण करना)।</p> <p><b>शारीरिक क्षमता परीक्षा (पीईटी) (महिला के लिए):—</b></p> <p>(क) 04 (चार) मिनट और 30सेकेंड में 800 मीटर दौड़</p> <p><b>टीप-1 :</b> जिन्होंने दौड़ उत्तीर्ण कर ली है वे आगे निम्नलिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए योग्य होंगे:</p> <p>(i) ऊंची कूद – 3.00 फीट (दिये गये तीन अवसरों में से किसी एक में उत्तीर्ण करना)।</p> <p>(ii) विस्तृत कूद/लम्बी कूद— 9.0 फीट (दिये गये तीन अवसरों में से किसी एक में उत्तीर्ण करना)।</p> <p><b>चिकित्सा मापदंड :</b></p> <p>(i) बिना चश्मे के बेहतर आंख से न्यूनतम दूरदृष्टि 6/6 और खराब आंख से 6/12, उम्मीदवार रंग-अंधता से मुक्त होना चाहिए।</p> <p>(ii) उम्मीदवार के घुटने मुठे हुए, समतल पैर, वैरिकोज नस या आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए।</p> <p>(iii) उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा कर्तव्यों के कुशल प्रदर्शन में हस्तक्षेप करने की संभावना वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए।</p> <p><b>टीप-2:</b> शारीरिक क्षमता परीक्षा के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जायेगी।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	<p><b>आयु:</b> लागू नहीं</p> <p><b>शैक्षणिक योग्यता:</b> हाँ</p> <p>सीधी भर्ती वालों के लिए शैक्षिक योग्यता पदोन्नति वाले उम्मीदवारों के मामले में भी लागू होगी— हाँ</p> <p><b>टीप:</b> जो कर्मचारी इस अधिसूचना की तिथि तक भरक श्रेणी के पद पर हैं उनके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा समकक्ष से 10वीं उत्तीर्ण योग्यता पदोन्नति के लिए आवश्यक होगी।</p>
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	<p>सीधी भर्ती तथा पदोन्नति हेतु दो वर्ष</p> <p><b>टीप :</b>—सीधी भर्ती वालों के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए</p>

		कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण होना चाहिए।
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्ति/पदोन्नति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	: (1) पदोन्नति—50 प्रतिशत (2) सीधी भर्ती —40 प्रतिशत (3) प्रतिनियुक्ति जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा — 10 प्रतिशत
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो, तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	: <b>पदोन्नति :-</b> नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदत्त ग्रेड में दस वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500—81100 /—रुपये) में हैड वार्डर/हैड मैट्रन में से, जिसके न होने पर वार्डर/हैड वार्डर अथवा मैट्रन/हैड मैट्रन के रूप में 15 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500—81100 /—रुपये) में हैड वार्डर/हैड मैट्रन में से, जिसमें से हैड वार्डर/हैड मैट्रन के रूप में 07 वर्षों की नियमित सेवा होनी चाहिए।  <b>टीप:-</b> पदोन्नति के लिये हैड वार्डन तथा हैड मैट्रन का अनुपात उनकी संबंधित स्वीकृत संख्याबल के अनुपात में होगा।  <b>प्रतिनियुक्ति :-</b>  सीएपीएफ के कर्मचारी :  (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी, अथवा  (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200—92300 /—रुपये) अथवा समकक्ष में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के उपरांत प्रदत्त ग्रेड में 06 (छह) वर्षों की सेवा सहित; तथा  (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले;  (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री।  (ii) कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने अथवा सुरक्षा ड्यूटी का एक वर्ष का अनुभव।  <b>टीप-1 :-</b> जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा 2 वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ

		<p>अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p><b>टीप-2:</b> भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं; वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।</p> <p><b>टीप-3:</b> केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	<p><b>विभागीय पदोन्नति / स्थायीकरण समिति</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सचिव-सह-आयुक्त (विकास) – अध्यक्ष</li> <li>2. संबंधित विभाग का प्रशासनिक सचिव- सदस्य</li> <li>3. विशेष/अपर सचिव (सा0प्र0वि0)– सदस्य</li> <li>4. उप-निरीक्षक, सामान्य कारागार– सदस्य</li> </ol> <p><b>टीप:-</b> यदि अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति / स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति/स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।</p>
13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजीव कुमार त्यागी, उप-सचिव (गृह)

**टीप:-** मूल अधिसूचना दिनांक 16.6.1995 को सं.फा. 9/36/94-गृह (सा0)/2732 के द्वारा अधिसूचित हुई थी तथा तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित हुई :-

क्र० सं०	फाइल संख्या	दिनांक:
1.	फा0 9/12/2010/गृह (सा0)/2034	21.05.2012

## HOME (GENERAL) DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 25th June, 2024

**F. No. 9/12/2010/HG/1402-1408**—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.27/59-Him (i) dated, the 13<sup>th</sup> July, 1959 and in supersession of this Government's Notification No. F.9/12/2010-Home (G)/2034 dated 21.05.2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make rules for the post of **Assistant Superintendent** in the Delhi Prisons Department, Government of National Capital Territory of Delhi, as following namely:-

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Delhi Prisons Assistant Superintendent Recruitment Rules, 2024.  
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of posts, classification and level of pay** - The number of the said post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of Recruitment, age-limit, qualification etc.,** - The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualifications- No Person:-**
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
  - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to Relax:-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

NAME OF THE POST.	NUMBER OF POSTS.	CLASSIFICATION.	LEVEL IN THE PAY MATRIX.	WHETHER SELECTION BY MERIT OR SELECTION CUM SENIORITY OR NON SELECTION POST.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.	EDUCATIONAL AND OTHER, QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Superintendent,	312* (2024) * Subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group "B", Non- Ministerial Non-Gazetted	LEVEL6 (Rs. 35400 - Rs. 112400) in the pay matrix	Selection post	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority.	<u>Essential</u> Graduation/Bachelor Degree from a recognized University. <u>Desirable qualification:</u> Masters degree in Criminology, Sociology, Social work, Law of Psychology. <u>Physical standard (for male)</u> Height: 165 cms, Relaxable by 5 cms for residents of hill areas i.e. Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu & Kashmir. {(Candidates claiming this relaxation would have to produce a certificate to this effect (Hill area certificate)}

						<p>from the competent authority i.e., DC/DM/SDM or Tehsildar of their place of residence with the application and at the time of Physical Measurement Test.}}</p> <p>Chest: Minimum 81 cms -85 cms (with minimum of 4 cms expansion). Relaxable by 5 cms for residents of hill areas, for which certificate as above will be produced.</p> <p><u>Physical standard (for female)</u> Height: 157 cms Relaxable by 5 cms for residents of hill areas i.e. Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu &amp; Kashmir. {(Candidates claiming this relaxation would have to produce a certificate to this effect (Hill area certificate) from the competent authority i.e., DC/DM/SDM or Tehsildar of their place of residence with the application and at the time of Physical Measurement Test.)}</p> <p><u>Physical Endurance Test (PET) (for male):</u></p> <p>1600 meters race in 06 (six) minutes and 30 seconds</p> <p>Note : Those who qualify in the race shall be further eligible to appear in the following tests :-</p> <p>(i) High jump – 3 Feet 6 Inches (To be achieved in any one of the three chances that will be given).</p> <p>(ii) Broad jump/Long jump – 13.0 Feet (To be achieved in any one of the three chances that will be given).</p> <p><u>Physical Endurance Test (PET) (for female):</u></p> <p>800 meters race in 4 (four) minutes and 30 seconds.</p> <p><u>Note-1:</u> Those who qualify in the race shall be further eligible to appear in the following tests :-</p> <p>(i) High jump – 3.00 feet (To be achieved in any one of the three chances that will be given).</p> <p>(ii) Broad jump/Long jump – 9.0 feet (To be achieved in</p>
--	--	--	--	--	--	--



						<p>any one of the three chances that will be given).</p> <p><u>Medical Standard:</u></p> <p>(i) The minimum distant vision should be 6/6 in better eye and 6/12 in the worse eye, without glasses. The candidate should be free from colour blindness.</p> <p>(ii) The candidate must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes.</p> <p>(iii) They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.</p> <p><u>Note-2 :</u> There would be no appeal against the PET.</p>
--	--	--	--	--	--	--

AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATION PRESCRIBED FOR THE DIRECT RECRUIT WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	PERIOD OF PROBATION, (IF ANY).	METHOD OF RECRUITMENT, WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY DEPUTATION /PROMOTION/ABSORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIES TO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/DEPUTATION/ABSORPTION GRADES FROM WHICH PROMOTION/DEPUTATION/ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION.	CIRCUMSTANCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITMENT
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>Age:-No Educational Qualification:- Yes</p> <p>Educational Qualification for Direct Recruitment will apply in the case of Promotees: Yes</p> <p><b>Note:</b> For the officials, who are holding feeder grade post as on date of this notification, qualification of 10<sup>th</sup> pass from recognized Board or equivalent will be essential for promotion.</p>	<p>2 years for direct recruits and promotees.</p> <p><b>Note:</b> For Direct recruits, there shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Competent Authority.</p>	<p>(i) Promotion – 50%</p> <p>(ii) Direct Recruitment – 40%</p> <p>(iii) Deputation failing which by Direct Recruitment – 10%</p>	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Head Warder / Head Matron in the level 4 (Rs. 25500-Rs.81100) in the pay matrix with 10 years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis failing which Head Warder / Head Matron in the level 4 (Rs. 25500-Rs.81100) in the pay matrix with 15 years combined regular service as Warder/Head Warder or Matron/Head Matron out of which 07 years regular service should be as Head Warder/Head Matron.</p> <p><b>Note:</b> The ratio of Head Warder and Head Matron for promotion shall be Proportionate to their respective sanctioned strengths.</p> <p><b>Deputation:-</b></p> <p>Officials of CAPFs:-</p> <p>(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department, Or</p> <p>(ii) with 6(six) years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level-5 (Rs 29200-Rs.92300) of Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) Possessing the following educational Qualification and experience;</p> <p>(i) Bachelors degree from a recognized university or institute;</p> <p>(ii) One year experience of maintenance of Law and Order or security duty.</p>	<p><b>Departmental Promotion/confirmation Committee:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secretary-cum-Commissioner (Development)-Chairman</li> <li>2. Administrative Secretary of the Department concerned-Member</li> <li>3. Special/Addl. Secretary (GAD)-Member</li> <li>4. Deputy Inspector General, Prisons --Member</li> </ol> <p><b>Note:-</b> Senior most member of the departmental promotion/Confirmation committee shall act as Chairperson in case notified Chairperson happens to be junior to another member of the departmental promotion/Confirmation committee.</p>	<p>Consultation with UPSC is not necessary.</p>

			<p><b>Note-1:</b> Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Note-2:-</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note-3:</b> The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Secy. (Home)

**Note:**—The Principal Notification was notified vide No. F.9/36/94-Home(G)/2732 dated 16.06.1995 and subsequently amended as under:-

S.No.	File No.	Date
1	F.9/12/2010/Home(G)/2034	21.05.2012